

January 15, 2025

To
The General Manager
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jee Jee Bhoy Tower
Dalal Street, Fort
Mumbai-400001
Fax: 022-22722061/41/39

Phone No. 91-22-22721233/4

Scrip Code: 544239

To
The General Manager
Department of Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051
Fax: 022-26598237/38/47

Phone No. 022-2659-8235/36 **Symbol: ECOSMOBLTY**

Sub: Publication- Notice of Postal Ballot

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provision of Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement of notice of postal ballot for ratification of Ecos (India) Mobility and Hospitality Employee Stock Option Plan, 2024 published on Wednesday, January 15, 2025 in Business Standard (English & Hindi).

This is for your information and record.

Thanking You, For Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited

SHWETA Digitally signed by SHWETA BHARD BHARDWAJ Date: 2025.01.15 WAJ 17:17:27 +05'30'

Shweta Bhardwaj

(Company Secretary & Compliance Officer) Membership No: 43310

Providing Ground Transportation in 100+ Cities in India & 30+ Countries Worldwide

HCLTech growth train may slow on valuation track

Retail cutbacks, Verizon impact, project delays to weigh on IT major

New Delhi/Mumbai, 15 January

he stock of India's thirdlargest information technology services provider, HCLTech, fell as much as 9.41 per cent to hit an intraday low of ₹1,798 before recovering slightly to end the day at ₹1,813.95, down 8.63 per cent. By comparison, the BSE Sensex closed 0.22 per cent higher at 76,499.63. The sharp decline in the stock price was due to nearterm growth concerns and


valuation issues.

The company narrowed its 2024-25 (FY25) organic growth guidance to 4-4.5 per cent, compared to 3.5-5 per cent earlier. This guidance includes the impact (50 basis points) of its acquisition of Hewlett Packard Enterprise's (HPE's) Communications Technology Group (CTG) assets. The FY25 guidance implies fourth quarter (Q4) FY25 quarter-onquarter (Q-o-Q) revenue growth of minus 1.3 to 0.6 per cent.

The muted growth outlook is attributed to the ramp-down of a large programme in retail, a planned reduction following the anniversary of the Verizon mega-deal (which will also affect the first quarter of 2025-26/FY26 to some extent), and the time needed for the ramp-up of recently won discretionary programmes. Kotak Institutional Equities expects lower growth acceleration compared to select peers due to HCLTech's portfolio mix and tepid large deal wins in recent quarters. The brokerage has retained its 'reduce' rating as the stock trades at full valuations.

Jefferies has a 'hold' rating with a target of ₹2,060, acknowledging the higher margins in the third quarter (Q3) but expressing concerns over revenue falling slightly short of estimates and the FY25 growth guidance of 4.5-5 per cent, signalling a weak Q4 outlook, according to reports.

CLSA also maintained a 'hold' rating with a target of ₹1,882. It noted erative artificial intelligence to drive stable demand momentum across




smaller deals but raised concerns over the unchanged growth guidance despite slight revisions in FY25 constant currency revenue growth expectations. Morgan Stanley retained an 'equal-weight' rating, setting a target price of ₹1,970. It pointed out that the lower revenue guidance was offset by positive management commentary.

Meanwhile, analysts at Nuvama Institutional Equities noted that the results were broadly in line with expectations. They highlighted HCLTech's superior growth compared to peers, robust free cash flow generation, and strategic capital allocation. However, with the stock trading at 28.5x FY26 price-to-earnings (P/E) estimates, its valuation appears stretched.

Consequently, Nuvama revised its FY25/26 estimates downward by 0.6 per cent and 3 per cent, respectively, while rolling forward to 28x FY27E (E = Estimates) P/E. The target price was marginally increased to ₹2,150 from ₹2,125, accompanied by a downgrade to a 'hold' rating

Nomura maintained a 'buy' rating with a target price of ₹2,000, citing a strong deal pipeline, HPE's CTG acquisition, and the potential of gengrowth in areas like technology mod-

MUTED OUTLOOK



ernisation, Cloud, and data. It identified downside risks, including unexpected ramp-downs hurting

Similarly, Motilal Oswal reaffirmed its 'buy' rating on HCLTech, setting a target price of ₹2,400. The brokerage anticipates HCLTech achieving earnings before interest and tax margin of 18.2 per cent in FY25, with a recovery to 18.9 per cent in FY26 as growth accelerates. It projects a compound annual growth rate of 7.5 per cent in dollar revenue and 11.7 per cent in profit after tax over FY25 through 2026-27E. The estimates remain largely unchanged, the brokerage said.



HEALTH COVER AGAINST CANCER Check policy for exclusions, co-payment and sub-limits

SANJAY KUMAR SINGH & KARTHIK JEROME

January is observed as cervical cancer awareness month. Cancer is also in the news because hospitalisation claims for this disease rose by 12 per cent in 2024, according to the Indian Healthscape 2024 report by MediAssist Healthcare Services, the country's largest health insurance third-party administrator (TPA), which processes over a fifth of all hospitalisation claims.

"In India, one out of every nine people is likely to be diagnosed with cancer in their lifetime," says Parthanil Ghosh, director and chief business officer, HDFC Ergo General Insurance.

Options to cover cancer Cancer can be covered through

several types of policies. Indemnity-based covers pay for hospitalisation expenses. "Now, insurers have also designed hospitalisation covers for people who have been diagnosed with cancer," says Siddharth Singhal, head of health insurance, Policybazaar.com.

Critical illness plans are a second option. "These are fixed-benefit plans that cover several critical illnesses, including cancer," says Kapil Mehta, co-founder, SecureNow.

Cancer-specific policies, which only cover cancer, are available as indemnity-based or fixed-benefit plans. Fixedbenefit plans offer a lump sum payout upon diagnosis and sometimes include an income benefit. "If the breadwinner gets diagnosed with cancer, the

administered through

Organisation (EPFO).

Failure to complete

linkage may result in

ineligibility for scheme's

the Employees

Provident Fund

typically cover all stages of the disease. "They may cover a stage or two earlier than what a hospitalisation policy would pay for, so there is a slight benefit to owning them," says Mehta.

Cancer-specific policies

Start early for better coverage

insurer may offer a pre-

already have cancer.

decided sum of money at inter-

vals to help the family cope

Ghosh. Fixed-benefit plans don't cover individuals who

with the loss of income," says

Purchase health insurance early while you are diseasefree. "It might become very difficult to get a comprehensive health cover for someone who has already had cancer," says Aayush Dubey, co-founder and head of research, Beshak.org.

Insurers may reject proposals or issue policies with restrictions and higher premiums. Dubey adds that insurers might also exclude cancer permanently from coverage. Singhal highlights that healthy individuals have a wide range of policy options, while those diagnosed with

cancer must choose from a limited range.

Mehta recommends buying a broad hospitalisation cover first, ideally with a high sum insured. "If you have to undergo treatments such as immunotherapy, they can cost as much as ₹30-40 lakh in a metro," he says.

For those unable to afford a high cover, combining a basic hospitalisation cover (₹10−20 lakh) with a critical illness policy (or a cancer-specific plan) can be cost-effective.

Key considerations

When buying a hospitalisation cover, individuals with a history of cancer must review the coverage carefully. "Based on medical history and the current stage of cancer, the insurer's underwriters may take a call on what is to be covered," says Singhal.

Hospitalisation policies for those already diagnosed often include waiting periods. "Waiting periods for pre-existing diseases have now been standardised and cannot exceed three years," says Singhal.

Fixed-benefit plans, especially critical illness plans, may have a survival period clause, usually of 15 days, which can sometimes extend to 30-60 days. "If the disease is vicious, the patient may not survive for a long period," says Mehta. He advises avoiding policies with longer survival periods. Dubey stresses checking indemnitybased policies for co-payment clauses and sub-limits on room rent, specific diseases, and

HOSPITALISATION PLANS FOR CANCER SURVIVORS

Insurer	Plan	Sum insured* (₹lakh)	Annual premium (₹)				
Star	Cancer Care Platinum	10	31,081				
Manipal Cigna	Prime Senior Elite	10	23,888				
Star	Cancer Care Platinum	5	21,299				
Care	Care Freedom	5	8,050				
Above are hospitalisation plans available to customers who have already suffered from cancer; "Sum insured is the maximum available, except in case of Manipal Cigna, where it can go up to ₹50 lakf). Premiums are for 40-year-old living in Delhi, except in the case of Manipal Cigna, where the age is 56 years (minimum entry age). Source: Policybazaar.com							

Link Aadhaar, activate UAN by January 15 to get ELI benefits

To receive benefits under the Employment Linked Incentive (ELI) scheme, it is crucial to activate Universal Account Number (UAN) and link it with Aadhaar and bank account by January 15.

incentives. ELI scheme is How to link UAN

Read full report here: mybs.in/2eju1Cl

■ Navigate to the official EPFO website

■ Click on 'activate UAN' ■ Look under the 'important links' section and select 'activate UAN'

Enter the following information: UAN (Universal

MOBILITY

Account Number) ■ Aadhaar number ■ Full name (as per

Aadhaar) ■ Date of birth

■ Mobile number linked to Aadhaar

A one-time password (OTP) will be sent to

your Aadhaar-registered

mobile number ■ Enter the OTP to

proceed ■ After verification, you will receive a PIN on your registered mobile

number ■ Enter the PIN to complete the activation

COMPILED BY AYUSH MISHRA

New Delhi-110019 Tel: 011-41732000/41792800 Website: www.ifciltd.com CIN: L74899DL1993GOI053677

Notice: Inviting Applications for Empanelment of Business Partners for opportunities in Consultancy

Regd. Office: IFCI Tower. 61 Nehru Place

IFCI Limited invites applications for empanelment of Business

Partners for opportunities in Consultancy. Interested applicants can download the application format and other terms and conditions from www.ifciltd.com. Any further updates shall be uploaded on the General Manager

Corporate Advisory Department

Karnataka Bank Ltd. Your Family Bank. Across India

Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajendra Park, : 011-40591567(Ext-240) E-Mail : delhiarm@ktkbank.com Website: www.karnatakabank.co

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarante (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secure Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd, the Secured Creditor on 27.09.2023, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on 15.02.2025, for recovery o Rs. 5,77,13,046.72 [Rupees Five Crore Seventy Seven Lakhs Thirteen Thousand Forty Six and Paise Seventy Two Only] i.e. under Term Loan A/c No.0307001800007401 along with future interest from 01.01.2025. plus costs.,due to the Karnataka Bank Ltd, Agra Branch, No.76, Heritage Towers, Mahatma Gandhi Road, Nehru Nagar, Agra-282002, Uttar Pradesh, the Secured creditor from (1) Mr. Prem Kumar S/o Mr. Ashok Kumar Singh, addressed at: Baikunth Bagh, Tadi Baghiya Rambagh NR Siddharth Property, Agra, Uttar Pradesh-282002 (2) Mr. Gagan Kumar S/o Mr. Ashok Kumar Singh,(3) Mrs. Munni Devi W/o Mr. Ashok Kumar Singh,(4) Mrs. Neema Devi W/o Mr. Gagan Kumar and (5)Mr. Ashok Kumar Singh S/o Mr. Shaitan Singh, All From

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: 1.All that Part & Parcel of Residential Property Bearing Plot No.79, land measuring 182.52 Square meters, Building Measuring 149.94 Square Meters, situated at Khasra No.1292/81mi, Baikunthi Bagh III, near Bhagwati Bagh, Mauza Naraich, Tehsil Etmadpui Dist: Agra, Uttar Pradesh, **Belonging to Mrs. Munni Devi Boundaries: East:** Plot No.78 **West:** Plot No.80 **North:** 25' Ft Wide Road **South:** Plot No.55 & 37

No.(2) to (5) are residing at: Baikunth Bagh, Tadi Baghiya, Pavin Vihar, Agra, Uttal

Pradesh-282003, being borrowers/ guarantors/ co – obligants.

Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold Rs.34.71,000.00 (Rupees Thirty Four Lakhs Seventy One Thousand only) Earnest money to be deposited/tendered: Rs.3,47,100.00 (Rupees Three Lakhs Forty

Seven Thousand One Hundred Only) 2.All that Part & Parcel of Residential Property Bearing Plot No.77A & 78, land measuring 167.66 Square meters, Building Measuring 144.37 Square Meters, situated at Khasra No.1292/81mi, Baikunthi Bagh III, near Bhagwati Bagh, Mauza Naraich, Tehsil Etmadpur Dist: Agra, Uttar Pradesh, **Belonging to Mrs. Munni Devi**

Boundaries: East :15'ft wide Rasta West : Plot No.79 North: 25'ft wide Rasta South: Plot No.32 Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold:

Rs.29,09,000.00 (Rupees Twenty Nine Lakhs Nine Thousand only) Earnest money to be deposited/tendered: Rs.2,90,900.00 (Rupees Two Lakhs Ninety

The borrower's/mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset). (This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors)

For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Webs i.e. www.karnatakabank.com under the head "Mega E-Auction on 15.02.2025". The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 15.02.2025 from 11:30 A.M to 12:30 P.M with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 14.02.2025) from

M/s.4closure, 605A, 6th Floor, Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad-500038, Contac No.040-23836405, Mobile 8142000809, E-mail:info@bankauctions.in. Sd/- For Karnataka Bank Ltd Chief Manager & Authorised Officer.

NOTICE

All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement o Goods, Works and Services are available on websites of Coal India Limited (www.coalindia.in), respective Subsidiary Company (WCL, www.westerncoal.in), CIL e-procurement portal (https://coalindiatenders.nic.in) and Central Public Procurement Porta (https://eprocure.gov.in). Bids for the tender can be submitted through https://coalindiatenders.nic.in only. Corrigendum/Addendum fany, are published on https://coalindiatenders.nic.in only. In addition procurement is also being done through GeM Portal (https://gem.gov.in).

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER. GENERATION DIVISION LJHP BARAMULLA

Email id: xeneljhp@gmail.com E-NIT No: GD/LJHP/ 40 of 2024-25

Dated:- 13-01-2025

E-tender (in two parts) on behalf of Managing Director, Jammu and Kashmir Power Development Corporation are invited for Annual and Routine Maintenance of 105 MW (3x35 MW) LJHP Power Project Baramulla from the reputed OEM's / Registered Firms with J&K Govt, Central Government, NHPC having specific experience as stated in the tender document for below mentioned work:

Sia	ited in the tender docume	TIL TOT DETOW THEITHOR	eu work.				
S	Scope of work	Period of	Estimated			Period at completion	
No		Contract	Cost (Rs	, ·	document		
			in Lacs)	Lacs)	(in Rs)		
1	Supply of Materials for RMC and AMC of 3X35MW LJHP.	One year, Reckoned from the date of Issuance of LOA	47.68	2.34	5000,00	RMC materials shall be supplied to Divisional Store UHP within 45 Days from the date of issuance of LOA, AMC material shall be supplied to Divisional Store LJHP within 90 days from date of issuance of LOA.	
2	Routine Maintenance of Electro Mechanical Equipment's installed at 105 MW 13x35) LJHP.	One year, Reckoned from the date of commencement of work.	57.511			24 months	
3	Annual Maintenance of Electro Mechanical Equipment's installed at 105 MW (3x35MWs) LJHP.	One year, Reckoned from the date of commencement of work.	11.493			Maximum 21 days per machine per year for AMC along with allied equipment's/installations (Annual maintenance for Six machines in two successive years as per the time slot to be decided by Engineer In-Charge).	
4	Grand Total		116.684				
CR	RITICAL DATES			•			
1.	Date of Issue of tender notice				13/01/2025		
2.	Period of downloading of bidding documents.				13/01/2025 to 03/02/2025		
3.	Date and time of Pre bid meting				20/01/2025 at 1400 hrs		
4.	e-Bid submission (start) date & time				21/01/2025 at 0900 hrs		
5.	e-Bid submission (end) date & time				04/02/2025 at 1500 hrs		
6.	Commercial and Technical Bid opening date & time			06	06/02/2025 at 1400 hrs		
7.	Online financial e-Bid opening date & time			Wi	Will be communicated to the Technically		
	(Only of the technically qualified Bidders)			Qι	Qualified Bidders		

- Comlete bidding process will be on line. Price bid & as well as pre-qualification documents not to he submitted in physical form. However the same shall be obtained by the Department/ JKPDC management from the bidder who is declared as L1 after opening of financial bid
- The bidding documents consisting or BOQ (Bill of Quantities), set of Terms &. Conditions and other details can be seen at & downloaded from the government website www.jktenders.gov.in or the official website of JKPDC www.jkspdc.nic.in. The bidder has to submit the bids (complete in all respects) online.

No GD/LJHP 2576-81 Dated 13-01-2025

DIPK-NB-3185/24

Generation Division LJHP Gantamulla Baramulla

ECOS (INDIA) MOBILITY & HOSPITALITY LIMITED CIN NO. L74999DL1996PLC076375 €EC0

REDG. & CORP OFFICE: 45. 1ST FLOOR, CORNER MARKET. MALVIYA NAGAR, NEW DELHI - 110017 24X7 RESERVATION:

(+91) 11 4079 4079 | LEGAL@ECORENTACAR.COM | WWW.ECOSMOBILITY.COM

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act. 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 (cumulatively "Act"). SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited ("the Company") is seeking approval from its Members via passing of Resolution as set forth in the Postal Ballot Notice dated 10th January 2025 "Postal Ballot Notice/ Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circulars Nos. . 14/2020, 17/2020, dated April 8, 2020, April 13, 2020, respectively ("MCA Circulars"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on 10th January 2025 ("Cut-off Date"), was completed on

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and Members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only. The Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL') as e-voting agency for the purpose of providing remote e-voting services.

All the Members are hereby informed that:

(a) The e-voting period commences on Wednesday, 15th January, 2025 (09:00 A.M. IST) and will end on Saturday, 15th February. 2025 (05:00 P.M. IST) for all the Members, whether holding shares in physical form or in demat form. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. emote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Vote once cast cannot be changed subsequently.

(b) A person whose name is recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cutoff i.e. 10th January, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. A person who is not a Member on the

cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Deepak Kukreja (FCS No. 4140), PROPRIETOR, Deepak Kukreja & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the voting process through

Postal Ballot E-Voting in accordance with the law and in a fair and transparent manner

The results of the Postal Ballot/e-voting will be declared within a period of two (2) working days from the conclusion of remote e-voting, by the Chairperson or any other person by him in that behalf and displayed at the Registered office of the Company. The results along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on the website of the NSDL (www.evoting.nsdl.com) and communicated to the Stock Exchanges

(www.bseindia.com and www.nseindia.com) where the equity shares of the Company are listed. Members are requested to register their email ID permanently by following the procedure as mentioned below:

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email ID with the relevant

For further details, kindly refer to the Postal Ballot Notice. The Notice is also available on Company's website (https://www.ecosmobility.com/), Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com). Any Member seeking of electronic copy of this Notice may write to us at legal@ecorentacar.com. Further, details including detailed instructions for voting are provided in the Postal Ballot Notice available on the website of

In case of any queries related to this Postal Ballot including remote e-voting facility, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting. nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 454

> By order of the Board of Directors For Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited (Company Secretary & Compliance Officer) Membership No. 43310

Place:- Delhi Date:- 14.01.2025 HDFC BANK एचडीएफसी बैंक लि., भूतल, गुलाब भवन, understand your world 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परीशिष्ट IV के अनुसार) प्रतिभूति हित प्रवतेन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परीशिष्ट IV के अनुसार) चूंकि, एचडीएफसी बैंक ति. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 15-अक्टूबर-2024 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार() मैससे शांति नाथ इंटरप्राइजेज (कर्जदार) अपने श्री योगेश कुमार जैन तथा श्रीमती वर्ष जैन (गिरचीदाता(ऑ))गारंदिाता(ऑ) के जिए, को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर दिनांक 15-10-2024 की स्थिति के अनुसार मांग सूचना में उत्लेखित रकन रु. 89,84,669.71 (रुपये नवासी लाख चौरासी हजार छह सी उनहत्तर एवं पैसे इकहत्तर मात्र) तथा विनांक 16.10.2024 से उस पर भविष्य के व्याज तथा शुल्कों की रकम चुकता करने को कहा गया था कर्जदारो/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं द्वारा संबंधित रकम का मुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारो/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनेयन की धारा 13(4) के साथ पटित कथित वियमों के वियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अयोहस्ताक्षरी द्वारा 14 जनवरी, 2025 को दिल्ली में यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। एतदद्वारा विशेष तौ पर कर्जदारों,गारेटीवाताओं,गिरवीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाघारण को सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सीदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सीदा बकाया एवं आपके द्वारा मुगतेय रकम विनांक 15-10-2024 की स्थित के अनुसार कर 8.9.84.669.71 (रक्षमे नवासी ताख बीसपी हजार छन् उनहत्तर एवं पैसे इकहत्तर मात्र) तथा दिनांक 16.10.2024 से उस पर भविष्य के व्याज़ तथा शुटकों की रकम के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान प्रत्यामूत सम्मलियों को मुक्त कराने वे लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

यम्पनि का विवरण

स्वत्वाधिकारी कृष्ण कुंज, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, दिल्ली-110092 में स्थित प्लॉट नं. 91 के सामने की ओर पहली मंजिल पर 95 वर्ग यार्ड परिमाप का फ्लैट नं. एफ-2 रूपी रिहायसी सम्पत्ति जार नहला नाजाय रहे 30 वर्ग यांच नारताय का प्रति । १५७८ ते. १५७८ ते जा रहावता समात तथा चौहरी निम्नानुसार: पूर्व: अन्य का फ्लैट, पश्चिम: 30 फीट सङ्क, उत्तर: 25 फीट सङ्क, दक्षिण: प्लॉट नं. 92।

तनावग्रस्त अस्ति वसूली शाखा, तीसरी मंजिल, मेट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर-302004

फोन : 0141-265811, 2657989, 2657926, 2657921, ई-मेल : sbi.18184@sbi.co.in परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जे का नोटिस

जावाय. अधोहरताक्षरी, वित्तीय आरितयों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.10,2024 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता/बंधककर्ता श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री माधी सिंह निवासी एव.नं.ए-7, औद्योगिक क्षेत्र, पुगुल रोड, करणी विहार, बीकानेर - 334001 (राजस्थान) को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 64,04,717

क्षत्र, 'पुगल राज, करणा । वहार, बाकानर - 334001 (राजस्थान) को नाटिस म डाक्लाखत सांश के. 64,04,71 राज्य जीत लाख चार हकार सात सो सक्त मात्र) 16.10.2024 तक (16.10.2024 तक व्याज सहित, उत्तर राज्य सहित, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ, नोटिस की तिथि, नोटिस की तिथि, नोटिस की प्राधित की विथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण गुगतान होने तक। उधारकर्ता / गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/बंधककर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनयम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ इस वर्ष 2025 की इस 09 जनवरी को नीचे वर्णित संपत्ति पर

की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक शाखा तनावग्रस्त संपत्ति वसूली शाखा, तीसरी मंजिल, मैट्रिक्स माल, सेक्टर -4, जवाहर नगर, जयपुर के प्रभार के अधीन होगा, जिसकें अंतर्गत रूपये 64,45,715/- (रूपये चौसठ लाख पेंतालीस हजार सात सौ पंद्रह मात्र) 08.01.2025 तक की राशि और उस पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार और व्यय शामिल होंगे। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार)

श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री माधी सिंह के नाम आवासीय भवन प्लॉट संख्या ए-7, औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, करणी विहार, बीकानेर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 399.17 वर्ग मीटर सीमाएँ :- पूर्व :प्लॉट संख्या 08, पश्चिम: सड़क 9 मीटर, उत्तर : सड़क 12 मीटर, दक्षिण : प्लॉट संख्या ए-6 दिनांक : 09.01.2025, स्थान : बीकानेर प्राधिकत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

OSBI

भारतीय स्टेट बैंक

परिशिष्ट - IV {नियम 8(1) देखें} कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

हेत का प्रवर्तन {अधिनियम 2002 (2002का 54)} के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002 के {नियम 3} के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी मेसर्स श्री कृष्ण क्लॉथ स्टोर जिये उधारकर्ता श्री पुर्वा राम पुत्र श्री प्रहलाद राम, पता मंगल पैलेस, सिनेमा हाल के सामने, रोही रोड़ा, नोखा, बीकानेर -335022 को सूचना . उल्लेखित रकम रू. 38,74,910.16 शब्दों में अड़तीस लाख चोहत्तर हजार नो सो दस रुपए सोलह पैसे मात्र (दिनांव ?1.10.2024 को बकाया) तथा उस पर भविष्य के ब्याज व अन्य खर्चो की राशि को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 21.10.2024 का अकार) 1था उत्तर तर माज्य के ज्यावाज जन्य ख्या का तारा की कावरा सूचना का तारा कि 60 दिनों के मीतर पुनर्सदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देव सूचना दिनांक 21.10.2024 को जारी किया गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के सा मित अधिनियम की धाराँ 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एतद द्वारा उधारकर्ता औ आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गयी सम्पत्ति पर दिनांक 09 जनवरी 2025

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतदद्वारा संपत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया गय और संपत्ति का कोई संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अधीन रू. 36.82.397.00 और उस पर ब्याज व अन्य खर्च

. ४. . . . उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधार

श्री पुर्बा राम पुत्र श्री प्रहलाद राम के नाम आवासीय प्लॉट पट्टा नं. 2456, मिसल न. 1997, खसरा न 701/1301, रोही रोड़ा रोड, नोखा, बीकानेर स्थित, जिसका क्षेत्र 1520.00

उत्तर की ओर : श्री राम S/o डशर राम जाट दक्षिण की ओर : श्री हरदीन जाट S/o मदन लाल प्रजापत पर्व की ओर : आम रास्ता 30" चौडा

. ।श्चिम की ओर : खरनानी खेडी

दिनांक :09.01.2025

प्राधिकृत अधिकार्र

💶 एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड CIN: L65910HR1982PLC034071

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिटयुशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा **फोन**: + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

डाक मतदान की सूचना

एतददारा एचबी लीजिंग ऐंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित धारा 108 एवं धारा भाग कि असी कि प्रतिकार कि प्रतिकार कि स्वाप्ति के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें कार्योरेट मंत्रालय (**'एमसीए'**) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22 / 2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 और परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 (एतद्पश्चात सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" सर्दार्भित किए गए हैं), सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2"), समय समय पर, उनके किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा पुनर्-अधिनियमन(नों) सहित के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित विषयसूची मद कम्पनी के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग (**"रिमोट ई—वोटिंग"**) द्वारा डाक मतदान के माध्यम से अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तावित हैं।

विषयसूची मदें

शेयर्स का निर्गम (विशेष प्रस्ताव)

प्रवर्तक और गैर-प्रवर्तक कम्पनी समूह के लिए अधिमान आधार पर 1800000 इक्विटी

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी उन सभी सदस्यों, जिनके नाम कम्पनी / डिपॉजिटरीज नार द्वारा अनुरक्षित सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की सूची में **शुक्रवार, 10** जनवरी, 2025 ('कट-ऑफ तिथि) के कार्य समाप्ति के समय पर दृष्टिगत थे तथा जिनका ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध था, को डाक मतदान सूचना, केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भेजने का कार्य **मंगलवार, 14 जनवरी, 2025** को पूरा कर चुकी है। डाक मतदान सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hbleasing.com</u> स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> तथा एनएसंडीएल की वेबसाइट <u>www.nsdl.com</u>

सदस्यगण जिनके नाम सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की सूची में कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद हैं, वे डाक मतदान सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर वोट डालने के हकदार हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट—ऑफ तिथि को उनके द्वारा धारित चुकता इक्विटी शेयर्स के अनुपात में होगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह डाक मतदान की सूचना जानकारी मात्र के निमित्त मानेगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी ने इसके सदस्यों के लिए केवल ई-वोटिंग सुविधा की व्यवस्था की है. ताकि वे अपना वोट भौतिक मतपत्र के स्थान पर इलेक्टॉनिक विधि से डॉल सकें। सदस्यों को सहमति अथवा असहमति की सूचना केवल रिमोट ई-वीटिंग सिस्टम के द्वारा देनी

इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने सदस्यों को अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने हेतु सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ एक अनुबंध किया

रिमोट ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया तथा अनदेश डाक मतदान सचना में वर्णित किए गए हैं रिमोट ई-वोटिंग **बुधवार, 15 जनवरी, 2025 (पूर्वा. 09:00 बजे)** आरंभ होगी तथा बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2025 (अप. 05:00 बजे) तक जारी रहेगी। उक्त वोटिंग अवधि समाप्त होने पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग सुविधा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दी

सुश्री ज्योति शर्मा, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता सं. : एफ8843, सी.पी. . मं. : 10196) और उनकी अनुपस्थिति में सुश्री वरूणा मित्तल, पूर्ण–कालिक कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. : ए५२७७७, सी.पी. सं. : २३५७५) को डाक मतदान निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

डाक मतदान के परिणाम की घोषणा रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से दो कार्यदिवस के भीतर की जाएगी और साथ ही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तथा कार्पोरेट कार्यालय में सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ये परिणाम कम्पनी, एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे तथा बीएसई को भी सूचित किए जाएंगे।

किसी संदेह की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु ई—वोटिंग यूजर मैनुअल तथा शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) देखें अथवा 022-4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल करें या <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजें।

तिथि : 14 जनवरी, 2025

स्थान : गुरूग्राम, हरियाणा

डाक मतदान सूचना के बारे में किसी संदेह की स्थिति में या किसी सदस्य जिसका नाम सदस्य की पंजिका/लामार्थी स्वामियों की सूची में कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद हैं, डाक मतदान सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वह corporate@hbleasing.com को लिख सकता/सकती है।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

सोनाली शर्मा (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF LEASE DEEDS

Notice is hereby given to the Public that the Lease Deeds executed in favour of AMF ENERGY GREEN FIVE PRIVATE LIMITED ("AMP GREEN") for the property as mentioned in the table below have been lost/ misplaced. All person are hereby informed not to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing document. If anyone has already carried out or being carried out kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 7 days from this present Survey Village Farmer Name

Ranieet 20230107900250 AMP GREEN 163/35 Teiasvani Shekhawa Lease 165/35 Nagar

AMP ENERGY GREEN FIVE PRIVATE LIMITED 309, RECTANGLE ONE, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, DELHI DCB BANK

शद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र दिनांक 14.01.2025 को इस समाचार पत्र में खाता **मुस्तकीम और काशिफ बेगम** के खाते ात्र ने खाता नुस्तिकान और कीरिक बर्गन के खाते हैं बंधक सम्पत्तियों के बिक्री के लिए प्रकाशित हैं–नीलामी सूचना के सन्दर्भ में हैं, जिसमें ई–नीलामी की तिथि 20.02.2025 के स्थान पर **30.01.202** पढें । अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे ।

स्थान: मेरढ, उत्तर प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी, डीसीबी बैंक लिमिटेड

विशेष प्रचालन प्रमाग : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, गुलाब भवन, ६, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002 HDFC BANK मांग सूचना — सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत

एतद्वारा ऊपरनामित ऋणी, गारंटर(ओ) व गिरवीकर्ता(ओ) जो एवडीएफसी बैंक से उनके द्वारा ली गई ऋण सुविधा(ओ) के पुनर्भुगाना में असफल रहे हैं और जिनके खाते को **10 नवंबर, 2022** को गेरपरफार्मिंग एरम्बर्ट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत हो चुके हैं को सूचित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण व विनिम्मण व प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (सरफंसी अधिनियम, 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर **22 अक्टूबर, 2024** को सूचनाएं जारी की गई थीं लेकिन उनमें से कुछ को बिना किसी कार्यवाही के वापस कर दिया गया है अतः उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा सूचित किया जा रहा है।

1. मैसर्स गोविलक ई-कॉमर्स प्रा. लि. (ऋणी) इसके निदेशक के माध्यम से कार्यालय : 74–ए, पहली मंजिल, रानी झांसी रोड, मोटिया खान, पहांडगंज, दिल्ली–110055 पता नं. 2 : मकान नं. 5–बी, ब्लॉक-बीजी–1, शालीमार बाग, दिल्ली–110088, अन्य पता : यूनिट नं, 402, बिग्रेड आईआरवी सेंटर निल्लूरहल्ली रोड, व्हाइट फील्ड बैंगलूरू (बैंगलोर) अर्बन कर्नाटक 560068

2. श्री विनय गुप्ता (निदेशक / गारंटर) पुत्र श्री गौरी शंकर गुप्ता निवासी : फ्लैट नं. 318, स्टार लाइट रोहिणी कोर्टर्स के पास, दिल्ली—110085

अभारती पुष्पलता गुप्ता (निदेशक / गारंटर) पत्नी श्री गौरी शंकर गुप्ता निवासी : दूसरी मंजिल, पॉकंट—22, ब्लॉट नं. 66, सेक्टर 24 रिजाला मेट्रो स्टेशन, रोहिणी सेक्टर—7, दिल्ली—110085 4. श्री गौरी शंकर गुप्ता (गिरवीकर्ता / गारंटर) पुत्र श्री मंगत राम गुप्ता निवासी : दूसरी मंजिल, पॉकंट—22, प्लॉट नं. 66, सेक्टर 24 रिजाला मेट्रो स्टेशन, रोहिणी सेक्टर—7, दिल्ली—110085

अनुसूची─ । अनुसूची─ । प्रमुख प्रतिभूतिः बँक के पक्ष में ऋणी द्वारा सभी वर्तमान और भावी स्टॉक्स, बुक ऋण में विशेष प्रभार के द्वारा हाइपोधकेशन चल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का विवरण से संबंधित परिसंपत्ति ए. सभी स्टॉक-इन-ट्रेड, कच्चे माल, निर्माण की प्रक्रिया में तैयार माल और किसी अन्य माल, चल परिसंपत्तियों या मचेंडाइज के सहित वर्तमान व भावी दोनों सहित, या प्रतिभृति प्रदाता से संबंधित यहां के बाद अब या किसी भी समय पर जो कुछ भी हो या इसके निपटान पर और अब या किसी समय पर और स्टोर या स्टोर किए जाने के लिए यहां के बाद समय- समय पर या खरीदे गए या उसपर या प्रतिभृति प्रदाता की फैक्टरी या परिसर के ट्रांजिट के कोसें में या किसी भी स्थान पर जो कहीं भी हो और ऋणी के कब्बे में जहां कहीं भी हो या व्यवसाय में या किसी अन्य परिसर या मैसर्स गोक्लिक ई—कॉमर्स प्रा. लि. (ऋणी) के माध्यम से श्री विनय गुप्ता

श्रीमती प्रध्य लता गुप्ता व श्री गौरी

कोलाटेरल प्रतिभूति : यहां नीचे वर्णित अचल संपत्ति की बैंक को स्वामी ("गिरवीकर्ता") द्वारा टाइटल डीड के जमा के द्वारा इक्विटेबल गिरवी अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति का विवरण

पूरी दूसरी मंजिल में स्थित संपत्ति बियरिंग नं. की इक्विटेबल गिरवी, छत् अधिकारों के बिना, संपत्ति नं. 66, पॉकेट—22, सेक्टर 24, रोहिणी, नई दिल्ली—110086, क्षेत्र माण 66 वर्ग मीटर और सीमाएं निमानुसार र पूर्व प्लॉट नं. 65, पश्चिम: एस / लेन 4.0 मीटर, उत्तर: प्लॉट नं. 48, दक्षिण: श्री गौरी शंकर गुप्ता पुत्र श्री मंगत राम गुप्ता सूचना की तिथि : 22 अक्टूबर, 2024 एनपीए तिथि : 10 नवंबर, 2022

बकाया राशि (20.09.2024) : रु. 1.38.01.274.41 / — (रुपए एक करोड अडतीस लाख एक त्तर और इकतालीस पैसे केवल) 22.10.2024 तक सुविधा की प्रकृति : नकद ऋण खाता सं. 502000 13865 170 उक्त नामित ऋणी और / या उनके गारंटर(ऑ) / गिरवीकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफल होने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

दिनांकः 15.01.2025, स्थानः नई दिल्ली एचडीएफसी बैंक लि. के लिए, प्राधिकृत अधिकारी

गधारण को यह सचित किया जाता है कि राजनीतिव ल **विश्वास योग्य पार्टी** (दल का नाम के नाम र रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय न्य **पाटलिपत्र कॉलोनी, रोड नंबर-**1, **मकान नंबर-**181 **पटना, बिहार-800013.** (पूरा पता लिखे) में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धार . 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के . लेए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है- पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नी

अध्यक्ष:- एम्ब्रोस पैट्रिक महासचिव:- रिचर्ड रंजन

कोषाध्यक्ष :- रेमंड चेसनी यदि किसी को **विश्वास योग्य पार्टी** (प्रस्तावित पार्ट का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपति हो तो वे अपर्न आपति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल) भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड न दिल्ली-110001 को, इस सचना के प्रकाशन के 30 दिन

BRANCH SHIFTING

For the better convenience of our Maujpur Branch (1590), under Delhi East Region to our new premises with effect from

15/04/2025

The new address is as mentioned below:

Muthoot Finance Ltd..

Ground Floor, A-31/6, Kh No-166, Main Road, Mauipur, Delhi-110053. Ph.: 7594054154 / 7594054153 -mail: mgmau1590@muthootgroup.co In case of any grievance, please call: 011-46697801 We solicit your continued



patronage and support.

MOBILITY

ईकोस (इंडिया) मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड

सीआईएन नंबर: L74999DL1996PLC076375 **पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः** 45, पहली मंजिल, कॉर्नर

मालवीय नगर, नई दिल्ली & 110017 24X7 आरक्षणः (+91) 11 4079 4079; LEGAL@ECORENTACAR.COM | WWW.ECOSMOBILITY.COM

पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों को सचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों (सामूहिक रूप से "अधिनियम" संदर्भित) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और अन्य लागू कानून और विनियमन, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसार ईकोस (इंडिया) मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (**"कंपनी"**) अपने सदस्यों से 10 जनवरी 2025 के पोस्टल बैलट नोटिस (**"पोस्टल बैलट नोटिस/नोटिस"**) में . निर्धारित .संकल्प पारित करके केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (**"ई—वोटिंग/रिमोट ई—वोटिंग"**) के माध्यम से अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ—साथ, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, दिनांक ८ अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, (**"एमसीए परिपत्र**) के माध्यम से ई—वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट आयोजित करने के लिए. उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा रिमीट ई-वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया, जिनका ईमेल पता कंपनी या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम 10 जनवरी 2025 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्यों के रजिस्टर/लोभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, 14 जनवरी, 2025 को पूरी कर ली गयी।

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टल बैलेट के लिए पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफ के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी। कंपनी ने रिमोट ई—वोटिंग सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('**एनएसडीएल**') को ई—वोटिंग एजेंसी के रूप में नियक्त किया है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

रथान:– दिल्ली

दिनांक:- 14.01.2025

(क) ई—वोटिंग अवधि बुधवार, 15 जनवरी, 2025 (09:00 पूर्वाह्न भा.मा.स.) से शुरू होगी और शनिवार, 15 फरवरी, 2025 (05:00 अपराह भा.मा.स.) को सभी सदस्यों के लिए समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हों या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार मतदान करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ यानी 10 जनवरी, 2025 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लामभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार पोस्टल बैलट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री दीपक कुकरेजा (एफसीएस संख्या 4140), प्रोपराइटर, दीपक कुकरेजा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को कानून के अनुसार तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट –वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

(घ) पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग के परिणाम रिमोट ई-वोटिंग के समापन से दो (2) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों (www.bseindia.com और www. nseindia.com) को सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी स्थायी रूप से पंजीकृत करें : क) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।

अधिक जानकारी के लिए, कुपया पोस्टल बैलट नोटिस देखें। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट (https://www.ecosmobility. com/), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। इस नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहने वाला कोई भी संदस्य हमें legal@ ecorentacar.com पर लिख सकता है। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पोस्टल बैलेट नोटिस में मतदान के लिए विस्तृत निर्देश सहित विवरण दिए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहित इस पोस्टल बैलट से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl. com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Members तथा e-voting user manual for Members देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400013 से निर्दिष्ट ईमेल पते : pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर 91 22 2499 454 पर संपर्क कर सकते हैं।

> निदेशक मंडल के आदेशानसार ईकोस (इंडिया) मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के लिए श्वेता भारद्वाज

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) सदस्यता संख्या 43310

DreamFolks
Your Airport Experience Amplified!

इीमफोक्स सर्विसिज लिमिटेड

सीआईएनः L51909DL2008PLC177181

रजि. कार्यालयः 26, डीडीए फ्लैट्स, पंचशील पार्क, शिवालिक रोड, पंचशील एन्क्लेव, दक्षिणी दिल्ली नर्ड दिल्ली-110017, भारत, **फोनः** 0124-4037306, **ई-मेलः** compliance@dreamfolks.com, **वेबसाइटः** www.dreamfolks.com

पोस्टल बैलट सूचना

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों (सामूहिक रूप से **"अधिनियम"**), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और अन्य लागू कानून और विनियम, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, ड्रीमफोक्स सर्विसिज़ लिमिटेड ("कंपनी") अपने सदस्यों से 20 नवंबर, 2024 के पोस्टल बैलट नोटिस (**"पोस्टल बैलट नोटिस/नोटिस"**) में निर्धारित विशेष प्रस्ताव पारित करके केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (**"ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग"**) के माध्यम से अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 03/2022 दिनांक 05 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024, क्रमशः ("एमसीए परिपत्र") के माध्यम से ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट आयोजित करने के लिए, उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया, जिनका ईमेल पता कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी / डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम शुक्रवार, 10 जनवरी 2025 (**"कट-ऑफ तिथि"**) तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, मंगलवार, 14 जनवरी 2025 को पूरा हो गया था।

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टल बैलट के लिए पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- (क) ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 15 जनवरी, 2025 (सुबह 09:00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और सभी सदस्यों के लिए गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 (शाम 05:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हों या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएँगी। एक बार डाले गए वोट को बाद में बदला नहीं जा सकता।
- (ख) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ यानी शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉज़िटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल
- कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के शेयर रखता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, उसे रिमोट ई-वोटिंग के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जैसा कि नोटिस में
- (घ) नियमों के नियम 22(5) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री दीपक कुकरेजा (एफसीएस संख्या 4140) या उनकी अनुपस्थित में मेसर्स डीएमके एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ की श्रीमती मोनिका कोहली (एफसीएस 5480) को कानून के अनुसार तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- (ङ) अधिक जानकारी के लिए कृपया पोस्टल बैलेट नोटिस देखें, जो कंपनी की वेबसाइट (www.dreamfolks.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www. evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है। इस नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहने वाला कोई भी सदस्य compliance@ dreamfolks.com पर हमें लिख सकता है। इसके अलावा, पोस्टल बैलेट नोटिस में मतदान के लिए निर्देश सहित पोस्टल बैलट / ई-वोटिंग के परिणाम रिमोट ई-वोटिंग के समापन से दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर
- अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। संवीक्षंक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध
- (छ) प्रस्तावित प्रस्ताव, यदि स्वीकृत हो जाता है, तो उसे ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि को पोस्टल बैलट के माध्यम से सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा, अर्थात् गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को विधिवत पारित माना सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी को स्थायी रूप से
- पंजीकत करें क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर के विवरण और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए compliance@dreamfolks.com पर या आरटीए के पास delhi@linkintime.co.in पर विधिवत हस्ताक्षरित
- ख) डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।

अनुरोधं फ़ॉर्म आईएसआर-1/पत्र भेजकर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहित इस पोस्टल बैलट से संबंधित किसी भी पूछताछ के मामले में, आप www.evoting.nsdl. com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Members तथा e-voting user manual for Members देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से निर्दिष्ट ईमेल पते : evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते ड्रीमफोक्स सर्विसिज् लिमिटेड (हर्षित गप्ता) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता सं. A41111

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 14 जनवरी, 2025



Business Standard

Insight Out

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in



